

प्रैस नोट

दिनांक- 15.07.2021

गैंगस्टर में वांछित 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी प्रेमवीर, अवैध असलहा मय कारतूस सहित थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार जनपद में चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राबाद श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद श्री जयकरण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 15.07.2021 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम क्षेत्र में देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गैंगस्टर में वांछित एक पुरस्कार घोषित अपराधी प्रेमवीर सिरोधन रोड़ पर बिजली घर के पास किसी के आने का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग कर अभियुक्त प्रेमवीर को प्रातः समय करीब 06.30 बजे अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1- प्रेमवीर पुत्र मेघराज निवासी ग्राम खाद थाना स्याना जनपद बुलन्दशहरा
हाल पता- टीचर्स कॉलोनी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा

बरामदगी का विवरण-

- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त प्रेमवीर शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना सिकन्द्राबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0-266/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 17.04.2021 से वांछित चल रहा था। इन अभियोग में अभियुक्त प्रेमवीर की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त प्रेमवीर के विरुद्ध थाना सिकन्द्राबाद पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त प्रेमवीर का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0-63/21 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा
- 2- मु0अ0सं0-89/21 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा
- 3- मु0अ0सं0-95/21 धारा 420/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा
- 4- मु0अ0सं0-266/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा
- 5- मु0अ0सं0-687/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहरा

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मु0अ0सं0-687/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री जयकरण सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिकन्द्राबाद
- 2- उ0नि0 सुखपाल सिंह, है0का0 प्रशांत मलिक, का0 दिनेश तोमर, का0 शीतल देव